



## छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक  
संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा

दशम् सत्र

अंक-06

रायपुर, सोमवार, दिनांक 1 मार्च, 2021

(फाल्गुन 10, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

### **1. जन्म दिवस की बधाई**

माननीय अध्यक्ष ने श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री को जन्म दिवस के अवसर पर अपनी ओर से एवं सदन की ओर से शुभकामनाएं दीं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

### **2. प्रश्नकाल**

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 04 तथा 06 से 08 (कुल 07) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 5 के प्रश्नकर्ता सदस्य डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 43 तारांकित एवं 61 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(सदन की कार्यवाही 12.00 बजे स्थगित की जाकर 12.30 बजे समवेत हुई।)

**(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)**

### **3. वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक का उपस्थापन**

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 2 एवं 3 मार्च, 2021 की तिथियां आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नियत की ।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा की गई कि - आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना मंगलवार, दिनांक 2 मार्च, 2021 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

अपराहन 1.32 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 02 मार्च, 2021 (फाल्गुन 11, शक संवत् 1942) के पूर्वाहन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े  
प्रमुख सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा